

पुलिस ने किया नकली शराब बनाने वालों का राजफाश



Publish Date: Tue, 24 Nov 2020 07:00 PM (IST) Author: **Jagran**

पुलिस ने यमुना खादर में नकली शराब को तोहफा मार्का देशी शराब की बोतलों में बेचते थे।

बागपत, जेएनएन। पुलिस ने यमुना खादर में नकली शराब को तोहफा मार्का देशी शराब की बोतलों में बेचने के अवैध कारोबार का राजफाश किया है। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे शराब व खाली बोतलें व अन्य सामान बरामद किया है।

छपरौली-टांडा रोड पर पुलिस सोमवार की रात गश्त कर रही थी। इसी दौरान टांडा गांव के पास मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग टांडा के यमुना खादर में नकली शराब बना उसे तोहफा मार्का देशी शराब की बोतलों में भरकर बेच रहे हैं। पुलिस ने दो लोगों को बाइक पर आते देखा तो उन्हें रोकने का प्रयास किया। बाइक पर सवार दोनों आरोपितों ने फरार होने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने नकली शराब बनाने की बात स्वीकार की। पुलिस दोनों को शराब बनाने वाले स्थान पर ले गई। पुलिस ने वहां से 24 बोतल, 48 शराब के पच्चे, काफी मात्रा में खाली पच्चे व बोतल, प्लास्टिक की बाल्टी, जग, नौसादर, कीप व चाकू आदि सामान बरामद किए। पुलिस दोनों आरोपितों को थाने ले आई और मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

एसओ हेमेंद्र बालियान ने बताया कि गुलाब पुत्र खिलारी व जितेंद्र पुत्र वीर सैन निवासी कूरड़ी गांव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस धंधे में जुड़े दूसरे लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। आरोपित तोहफा मार्का के पच्चों में नकली शराब डालकर उसे बेच देते थे। अब लगातार धरपकड़ जारी रहेगी और किसी को भी गलत कार्य नहीं करने दिया जाएगा।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-duplicate-liquor-21096464.html>